



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक:- 30.08.2022

थाना पुलिस चौक द्वारा दिनांक-29.08.2022 को चैन स्नैचिंग करने वाले अभियुक्त सलमान उर्फ मेनाज पुत्र मुस्तफा को स्नैचिंग करने के 20 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर चैन को बरामद

किया गया

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री ए. सतीश गणेश महोदय कमिश्नरेंट वाराणसी द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी श्री राम सेवक गौतम महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री राजेश पाण्डेय ज़ोन काशी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध श्री अवधेश कुमार पाण्डेय महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा दिनांक 29/08/2022 को एक चैन स्नैचर को चैन छीनने के 20 मिनट के अंदर शाम करीब 18.10 बजे ही गिरफ्तार कर लूटी गई को चैन बरामद कर लिया गया , अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2022 धारा 392,411,506 IPC पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियोग का विवरण मुस्तकीम-

1. मु0अ0सं0 117/2022 धारा 307,323,504,506 IPC थाना लालपुर कमिश्नरेंट वाराणसी
2. मु0अ0सं0 118/2022 धारा 323,504,506 IPC थाना लालपुर कमिश्नरेंट वाराणसी
3. मु0अ0सं0 121/2022 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना लालपुर कमिश्नरेंट वाराणसी
4. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 392,411,506 IPC थाना चौक कमिश्नरेंट वाराणसी

अभियुक्त का विवरण: -

1. सलमान उर्फ मेनाज पुत्र मुस्तफा निवासी S 10/62 हुकुलगंज तडिया थाना लालपुर कमिश्नरेंट वाराणसी।

बरामद सम्पत्ति -

1. 15 ग्राम सोने की चैन मय लॉकेट कीमती लगभग 1 लाख रुपए।

घटना का विवरण:-

वादिनी अपने व्यक्तिगत काम से दिनांक 29/08/2022 को गोदौलिया गई हुई थी वापस लौटते समय सायं लगभग 17:00 बजे बेनिया से कबीरचौरा की तरफ जा रही थी की एक व्यक्ति निर्जन स्थान देख कर धक्का देदिया और गले में पहनी हुई सोने की चैन छीन कर भागने लगा कि पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर थोड़ी दूर पर मौजूद थाना चौक की फैंटम 16 के कर्मचारीगण द्वारा शोर सुन कर जनता के व्यक्तियों के साथ भागे और दौड़ाकर भागते हुए अभियुक्त को गली में पकड़ लिए तलाशी के दौरान लूटी गई चैन मय लॉकेट के बरामद हुई।

बरामदगी एवं गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. प्रभारी निरीक्षक चौक श्री शिवा कांत मिश्र
2. प्रभारी चौकी पियरी श्री प्रीतम तिवारी
3. आरक्षी विश्वजीत गोसाईं थाना चौक
4. आरक्षी रंजय कुमार प्रसाद थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
5. आरक्षी बृजेश प्रताप थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी
6. आरक्षी आनंद कुमार थाना चौक कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट
वाराणसी।